

शीघ्र डाक द्वारा

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) गुजरात
“लेखापरीक्षा भवन”, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009.



सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Accountant General (Audit-II), Gujarat
Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009.

क्र.ए.एम.जी.-I,मु.-II/लेखे/MGVCL/2025/ow. - 1236
4.11.25

सेवा में,
प्रबंधक निदेशक
मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
सरदार पटेल विद्युत भवन,
वड़ोदरा- 390007.

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Madhya Gujarat Vij Company Limited के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Madhya Gujarat Vij Company Limited के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6) (बी) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणी का प्रमाणपत्र', कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में रखने के लिए संलग्न पाएं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6) (बी) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को कंपनी के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ उसी तरह और उसी समय वार्षिक साधारण बैठक में रखना अनिवार्य है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को वार्षिक साधारण बैठक में रखने की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें।

कृपया, मुद्रित लेखों की छः प्रतियाँ इस कार्यालय के प्रयोग और अभिलेख के लिए भिजवाएं।
अनुलग्नक सहित इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीया,

उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-1)

संलग्नक: यथोपरि

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES
ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA GUJARAT VIJ
COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025.**

The preparation of financial statements of the Madhya Gujarat Vij Company Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 September 2025.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Gujarat Vij Company Limited for the year ended 31 March 2025 under Section 143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records:

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 143 (6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**



(Bijit Kumar Mukherjee)

Pr. Accountant General (Audit-II), Gujarat

Place: Ahmedabad

Date: 04.11.2025